



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

No. 113]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2006/माघ 14, 1927

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2006/MAGHA 14, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं
होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2006

का.आ. 132(अ).—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन) विनियम, 1976 के विनियम 2 की उप-धारा (च) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्र सरकार होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार, गठित केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी के पद पर श्रीमती संगीता गौयल, निदेशक, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को एतद्वारा नियुक्त करती है।

[सं. जेड-28016/1/2006-एच.पी.सी.]

शिव बसंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2006

S.O. 132(E).—In pursuance of the provisions of Sub-section (f) of Regulation 2 of the Homoeopathy Central Council (Election of President/Vice-President) Regulation, 1976 the Central Government hereby appoints Smt. Sangeeta Goel, Director of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India as Returning Officer to conduct election of President/Vice-President of the Central Council of Homoeopathy constituted under the provisions of Sub-section (1) of Section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

[No. Z-28016/1/2006-HPC]

SHIV BASANT, Jt. Secy.